



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1046 राँची, बुधवार,

18 दिसम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2019

संख्या-15/सा०अव०-03-03/2019 का.-8737-- भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या-20-25-56-पर्व-1, दिनांक-8 जून, 1957 के साथ वाचित परक्राम्य लिखत अधिनियम (निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट, 1881) 26-1881 की धारा-25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल, वर्ष 2020 में संलग्न अनुसूची-1 में उल्लिखित पर्व/अवसरों पर राजपत्रित अवकाश घोषित करते हैं।

2. वर्ष 2020 में संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित तिथियों को कार्यपालक आदेश के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय एवं राजस्व कार्यालय बन्द रहेंगे।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या-41/2/98 बी०ओ० ॥ दिनांक-09 अगस्त, 2002 एवं पत्रांक-1/22/2012-बी०ओ० ॥ दिनांक- 09 जनवरी 2013 के साथ वाचित परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट, 1881)-26-1881 की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल वर्ष 2020 में सम्पूर्ण राज्य में संलग्न अनुसूची-3 में उल्लिखित बैंक अवकाश घोषित करते हैं।

1. चांद के दृष्टिगोचर होने के अनुसार मुस्लिम त्योहारों के लिए निर्धारित अवकाश की तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है।
2. राज्य सरकार के अधीन सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में पाँच दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में छः दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली पूर्ववत लागू रहेगी।
3. अनुसूची-3 में उल्लिखित बैंक लेखा वार्षिक बंदी सरकारी अधिष्ठानों/कार्यालयों पर लागू नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव।

अनुसूची-1

वर्ष 2020 के लिए झारखण्ड राज्य में एन०आई०एक्ट,1881 के तहत घोषित अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत् 1941/1942)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	महाशिवरात्री	21 फरवरी	फाल्गुन - 02	शुक्रवार	1
2.	होलिका दहन	09 मार्च	फाल्गुन - 19	सोमवार	1
3	होली	10 मार्च	फाल्गुन - 20	मंगलवार	1
4.	सरहुल	27 मार्च	चैत्र - 07	शुक्रवार	1
5.	राम नवमी	02 अप्रैल	चैत्र - 13	गुरुवार	1
6.	महावीर जयंती	06 अप्रैल	चैत्र - 17	सोमवार	1
7.	गुड फ्राईडे	10 अप्रैल	चैत्र - 21	शुक्रवार	1
8.	अम्बेदकर जयंती	14 अप्रैल	चैत्र - 25	मंगलवार	1
9.	बुद्ध पूर्णिमा	07 मई	वैशाख - 17	गुरुवार	1
10	ईद- उल- फितर	25 मई	ज्येष्ठ - 04	सोमवार	1
11.	ईद-उल-जुहा (बकरीद)	01 अगस्त	श्रावण - 10	शनिवार	1
12.	जन्माष्टमी	12 अगस्त	श्रावण - 21	बुधवार	1
13.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त	श्रावण - 24	शनिवार	1
14.	करमा पूजा	29 अगस्त	भाद्र - 07	शनिवार	1
15.	महात्मा गाँधी का जन्म दिवस	02 अक्टूबर	आश्विन - 10	शुक्रवार	1
16.	महाअष्टमी/महानवमी	24 अक्टूबर	कार्तिक - 02	शनिवार	1
17.	मिलाद-उन-नबी या ईद-ए-मिलाद (पैगम्बर मोहम्मद का जन्म दिवस)	30 अक्टूबर	कार्तिक - 08	शुक्रवार	1
18.	दीपावली	14 नवम्बर	कार्तिक - 23	शनिवार	1
19.	सूर्य षष्ठी डाला छठ (सायं अर्घ्य)	20 नवम्बर	कार्तिक - 29	शुक्रवार	1
20.	गुरुनानक जयंती	30 नवम्बर	अग्रहायण- 09	सोमवार	1
21.	क्रिसमस	25 दिसम्बर	पौष - 04	शुक्रवार	1
	कुल दिन				21

टिप्पणी:- गणतंत्र दिवस-26 जनवरी, मुह्रम-30 अगस्त एवं विजयादशमी-25 अक्टूबर को रविवारीय अवकाश पड़ने के कारण उक्त तिथि को अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है, तथापि वैसे प्रतिष्ठान जहाँ शनिवार एवं रविवार सामान्य कार्यदिवस होता है, के लिए उक्त तिथि को अवकाश रहेगा।

अनुसूची-2

वर्ष 2020 के लिए झारखण्ड राज्य में कार्यपालक आदेश के तहत घोषित अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रिगेरियन कैलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत् 1941/1942)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	सोहराय	13 जनवरी	पौष - 23	सोमवार	1
2.	मकर संक्राति	15 जनवरी	पौष - 25	बुधवार	1
3.	बसंत पंचमी	30 जनवरी	माघ - 10	गुरुवार	1
4.	संत रविदास जयन्ती	09 फरवरी	माघ - 20	गुरुवार	1
5.	मजदूर दिवस	01 मई	वैशाख - 11	शुक्रवार	1
6.	गणेश चतुर्थी	08 जून	ज्येष्ठ - 18	सोमवार	1
7.	रथ यात्रा	23 जून	आषाढ़ - 02	मंगलवार	1
8.	हूल दिवस	30 जून	आषाढ़ - 09	मंगलवार	1
9.	रक्षा बंधन	03 अगस्त	श्रावण - 12	सोमवार	1
10.	विश्वकर्मा पूजा	17 सितम्बर	भाद्र - 26	गुरुवार	1
11.	शारदीय नवरात्र	17 अक्टूबर	आश्विन - 25	शनिवार	1
12.	दशहरा (महासप्तमी)	23 अक्टूबर	कार्तिक - 01	शुक्रवार	1
13.	भातृ द्वितीय (भैयादूज)/चित्रगुप्त पूजा	16 नवम्बर	कार्तिक - 25	सोमवार	1
14.	छठ प्रातः अर्घ्य	21 नवम्बर	कार्तिक - 30	शनिवार	1
	कुल दिन				14

टिप्पणी:- भगवान बिरसा मुण्डा जयन्ती/राज्य स्थापना दिवस एव गोवर्धन पूजा, 15 नवम्बर को रविवारीय अवकाश पड़ने के कारण अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है, तथापि वैसे प्रतिष्ठान जहाँ रविवार सामान्य कार्यदिवस होता है, के लिए उक्त तिथि को अवकाश रहेगा।

अनुसूची-3

वर्ष 2020 में एन०आई०एक्ट,1881 के तहत बैंक लेखा बन्दी अवकाश

क्र० सं०	अवकाश का नाम	ग्रिगेरियन कैलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत् 1941/1942)	सप्ताह के दिन	दिनों की संख्या
1.	बैंक लेखा की वार्षिक बन्दी	01 अप्रैल	चैत्र - 12	बुधवार	1
	कुल दिन				01
